



स मा चार

विधान सभा सचिवालय मध्यप्रदेश समाचार

राष्ट्रपतीय निर्वाचन की अधिसूचना जारी

भोपाल : 14 जून, 2017

भारत के पन्द्रहवें राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है। पूर्व में जारी किए गए निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार नामांकन-पत्र 28 जून तक प्राप्त किये जायेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 29 जून को और नामांकन पत्रों की वापसी की आखिरी तिथि 1 जुलाई नियत की गई है। आवश्यक हुआ तो मतदान 17 जुलाई को होगा।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रमुख सचिव श्री अवधेश प्रताप सिंह और वैकल्पिक रूप से अपर सचिव श्री प्रेमनारायण विश्वकर्मा को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है।

मतदान की स्थिति में विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्र-2, एम-2 (ग्राउण्ड फ्लोर) में मध्यप्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा मतदान किया जायेगा। मतों की गणना संसद भवन, नई दिल्ली में रिटर्निंग ऑफिसर के पर्यवेक्षण में की जायेगी।

समाचार

विधान सभा का पावस सत्र 17 जुलाई से

मध्यप्रदेश की चतुर्दश विधान सभा का बारह दिवसीय पावस सत्र सोमवार, 17 जुलाई से आरंभ होकर शुक्रवार, 28 जुलाई, 2017 तक चलेगा। राज्यपाल द्वारा तदाशय की अधिसूचना आज यहां जारी की गई।

विधान सभा के प्रमुख सचिव श्री अवधेश प्रताप सिंह के अनुसार बारह दिवसीय सत्र में सदन की 10 बैठक होंगी जिसमें शासकीय विधि विषयक कार्य संपादित किए जाएंगे।

इस सत्र हेतु विधान सभा सचिवालय में अशासकीय विधेयकों की सूचनाएं 28 जून तक तथा अशासकीय संकल्पों की सूचनाएं 6 जुलाई, 2017 तक प्राप्त की जायेंगी। जबकि स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण तथा नियम 267-क के अधीन दी जाने वाली सूचनाएं विधान सभा सचिवालय में दिनांक 11 जुलाई, 2017 से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जाएंगी।

उल्लेखनीय है कि चतुर्दश विधान सभा का यह चतुर्दश सत्र होगा।

वि.स./ज.स./2017

(मुकेश मिश्रा)
अवर सचिव